



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.07.2020 को ग्राम प्रानपुर में हुयी हत्या में फरार 20-20 हजार के इनामियाँ/वाँछित अभियुक्तगण 1. विष्णु 2. प्रेम किशोर 3. श्रीमती अनीता उर्फ हसमुखी को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह बरामद ।

दिनांक 12.07.2020 को थाना जसराना क्षेत्र के ग्राम प्रानपुर में शोभना देवी पत्नी विजय कुमार नि० प्रानपुर थाना जसराना फिरोजाबाद की पारिवारिक कलह को लेकर उसके पति विजय कुमार, देवर विष्णु, ससुर प्रेम किशोर व सास श्रीमती अनीता देवी उर्फ हसमुखी द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी और सबूत मिटाने की नियत से शव को जला दिया था । मृतिका श्रीमती शोभना देवी के चाचा (वादी) श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिवशंकर निवासी उदनाडाडा (खिरदपुर) पोस्ट विनायकपुर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी द्वारा मु०अ०सं० 329/20 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत कराया गया था । विवेचना के दौरान अभियुक्त विजय कुमार को दिनांक 22.08.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । हत्या में शामिल अभियुक्तगण 1. विष्णु पुत्र प्रेम किशोर उम्र 24 वर्ष 2. प्रेम किशोर पुत्र ग्यादीन उम्र 62 वर्ष 3. श्रीमती अनीता उर्फ हसमुखी पत्नी प्रेम किशोर उम्र 56 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम प्रानपुर थाना जसराना फिरोजाबाद हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे थे । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा वाँछित व ईनामियाँ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान आपरेशन चक्रव्यूह के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में जसराना पुलिस टीम व एस.ओ.जी. टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबुर की सूचना पर उपरोक्त वाँछित/ईनामियाँ अभियुक्तों को दिनांक 14.06.2021 को एटा -शिकोहाबाद रोड ग्राम बोझिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त विष्णु के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 04 अदद नाजायज जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है । अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- विष्णु पुत्र प्रेम किशोर उम्र 24 वर्ष नि० ग्राम प्रानपुर थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- प्रेम किशोर पुत्र ग्यादीन उम्र 62 वर्ष नि० ग्राम प्रानपुर थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- श्रीमती अनीता उर्फ हसमुखी पत्नी प्रेम किशोर उम्र 56 वर्ष नि० ग्राम प्रानपुर थाना जसराना फिरोजाबाद ।

बरामदगी अभियुक्त विष्णु:-

- एक अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज ।

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 329/2020 धारा 302/201 भादवि थाना जसराना फि0बाद
- मु0अ0सं0 69/2021 धारा 174ए भादवि थाना जसराना फिरोजाबाद
- मु0अ0सं0 250/2021 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना जसराना फिरोजाबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री बी.डी. पाण्डेय थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- एस.ओ.जी. प्रभारी उ0नि0 श्री विनोद कुमार जनपद फिरोजाबाद ।
- उ0नि0 श्री आदित्य सिंह थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- का0 685 अखिल कुमार थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- का0 1003 पुष्पेन्द्र सिंह थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- का0 752 सुजीत कुमार थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- म0 का0 214 शोवी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- है0का0 291 दिनेश गौतम जनपद फिरोजाबाद (एस.ओ.जी. टीम फिरोजाबाद) ।
- है0 का0 683 रमाकान्त जनपद फिरोजाबाद (एस.ओ.जी. टीम फिरोजाबाद) ।
- का0 1015 विजय कुमार जनपद फिरोजाबाद (एस.ओ.जी. टीम फिरोजाबाद) ।
- का0 1412 पवन कुमार जनपद फिरोजाबाद (एस.ओ.जी. टीम फिरोजाबाद) ।
- का0 1383 प्रवीन कुमार जनपद फिरोजाबाद (एस.ओ.जी. टीम फिरोजाबाद) ।
- का0 821 अनिल कुमार जनपद फिरोजाबाद (एस.ओ.जी. टीम फिरोजाबाद) ।